

सुरक्षा चेतावनियाँ

Spectacles छोटे बच्चों के लिए नहीं बनाया गया है। Spectacles के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया support.spectacles.com पर जाएं जिसमें उत्पाद सहायता और वापसी की जानकारी शामिल है।

चेतावनियाँ - उपयोग से पहले पढ़ें

ध्यान दें

अपने Spectacles के कैमरे का उपयोग करना जोखिमों के प्रति आपके प्रतिक्रिया समय को बढ़ा सकता है। Spectacles में देखी जा सकने वाली एलईडी लाइटें होती हैं जो आपका ध्यान भटका सकती हैं। जिन परिस्थितियों में आपके द्वारा पूरे ध्यान की ज़रूरत हो या जहाँ ध्यान भटकना आपको या अन्य लोगों को खतरे में डाल सकता हो, वहाँ नोटिफिकेशन को निष्क्रिय कर दें और Spectacles कैमरा प्रयोग न करें।

चेहरे की चोट से बचें

गिरने या टकराने वाली गतिविधियों में भाग लेते समय Spectacles न पहनें, जैसे कि तेज़-टक्कर के खेलों और गतिविधियों के दौरान जहाँ आप सामान्यतः धूप के चश्मे नहीं पहनते। अगर आप ऐसी गतिविधियाँ कर रहे हैं जिसमें आँखों की सुरक्षा की सलाह दी जाती है, वहाँ प्रमाणित सुरक्षात्मक चश्मा पहनें।

वाहन चलाना और ऑपरेट करना

कोई वाहन चलाने के समय या ऑपरेट करते समय नोटिफिकेशन निष्क्रिय कर दें और सावधानी बरतें। वाहन ऑपरेट करते समय चश्मे पहनने और उपकरण प्रयोग करने के स्थानीय कानूनों और विनियमों का पालन करें।

चुंबक और चिकित्सा उपकरण

Spectacles और चार्जिंग केस में चुंबक और अन्य पुर्जे होते हैं जो रेडियो तरंगें छोड़ते हैं, जो पेसमेकर और अन्य प्रत्यारोपित किए जाने लायक उपकरणों, सुनने की मशीन और इंसुलिन पंप जैसे चिकित्सीय उपकरणों के कार्य को प्रभावित कर सकती हैं। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सीय उपकरण है तो Spectacles का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर या उपकरण निर्माता से परामर्श लें और Spectacles और चार्जिंग केस को उचित दूरी पर रखें। अगर किसी चिकित्सीय उपकरण से आपको व्यवधान महसूस होता है तो Spectacles का उपयोग करना बंद कर दें।

3D व्यूअर

Spectacles सामग्री देखने के लिए अगर आप दिए गए 3D व्यूअर या किसी दूसरे व्यूअर/हेडसेट का उपयोग करते हैं तो व्यूअर के साथ दी गई सुरक्षा चेतावनियों को पढ़ना और उनका पालन करना सुनिश्चित करें।

हवाई यात्रा

Spectacles के साथ हवाई यात्रा करने से पहले निजी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर लागू हवाई सुरक्षा प्रशासन प्रतिबंध की जाँच कर लें। Spectacles और चार्जिंग केस में लीथियम आयन बैटरियाँ होती हैं और हवाई यात्रा करते समय उन्हें चेक-इन बैगेज में नहीं रखना चाहिए।

चार्जिंग

अपना चार्जिंग केस चार्ज करने के लिए केवल प्रदान की गई चार्जिंग केबल (या एजेंसी-अनुमोदित USB-C केबल) और एजेंसी-अनुमोदित पॉवर एडाप्टर ही प्रयोग करें। Spectacles और चार्जिंग केस के चार्जिंग क्षेत्रों को साफ-सुथरा और अवशिष्ट से मुक्त रखें। चार्जिंग क्षेत्रों को साफ करने के लिए शामिल किए गए साफ करने के कपड़े से पोंछ दें, ज़रूरत हो तो उसे हल्का गीला कर लें।

क्षतिग्रस्त SPECTACLES

चोट की संभावना से बचाने के लिए, क्षतिग्रस्त Spectacles न पहनें या उपयोग न करें। अपने Spectacles की खुद मरम्मत करने का प्रयास न करें। अगर वे क्षतिग्रस्त हैं, तो support.spectacles.com से संपर्क करें।

ओवरहीटिंग (अधिक गरम होना)

सामान्य उपयोग के समय आपके Spectacles बहुत अधिक गरम नहीं होने चाहिए या उसकी गरमी से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, तो उनका उपयोग बंद कर दें और support.spectacles.com से संपर्क करें।

इलेक्ट्रिकल पुर्जें

आपके Spectacles में इलेक्ट्रिकल पुर्जें होते हैं, इसलिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ बरती जाने वाली सावधानियाँ बरतें। उन्हें पानी या अन्य तरल पदार्थों से दूर रखें और खुली लपटों या खुले इलेक्ट्रिकल खतरों के आस-पास, चरम परिस्थितियों में, बैटरी चार्ज होते समय या बैटरी लीक होते समय या बैटरी के क्षतिग्रस्त होने पर, उपयोग न करें। Spectacles के किसी भी हिस्से को बदलने का प्रयास न करें।

बैटरी निकालना

Spectacles या चार्जिंग केस में से बैटरी निकालने या बदलने का प्रयास न करें। ऐसा करना सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता है।